

**\*@Shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य- 21.05.21\***

**पति का रात्रि में एक्सीडेन्ट होने पर उसके पास रखे पैसे न मिलने पर थाना पुवायाँ पहुँची महिला, सदमें में बीमार होने पर थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा घर जाकर 10,000 रु0 की मदद व राशन/सब्जी आदि उपलब्ध कराया गया, जनता द्वारा की जा रही प्रशंसा।\***

वर्तमान में फैली माहमारी कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुये जनता को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा प्रदेश मे लाक डाउन लागू किया गया है, जिसके अनुपालन में श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा जनपद के समस्त अधि0/प्रभारी निरीक्षकों/थाना प्रभारियों/कर्म0गण को थाना क्षेत्रों में लोगो को कोविड-19 के संक्रमण से वचाव की जानकारी व कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन कराने के साथ साथ जरूरतमंद/गरीब लोगो की मदद करने के सम्बन्ध में निरन्तर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा रहे है।

श्री के0बी0 सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ एवं थाना पुवायाँ पर नियुक्त उ0नि0/आरक्षीगण/महिला आरक्षियों द्वारा निरन्तर थाना क्षेत्र में जरूरतमंद/गरीब लोगो की जानकारी कर उनके घर पर भेजकर राशन/सब्जी को उन्हे उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनाँक 21.05.21 को थाना क्षेत्र की एक महिला द्वारा थाना पुवायाँ पर सूचना दी गयी कि उसके पति रात्रि में बण्डा रोड पर मो0सा0 से आ रहे थे कि अचानक बाइक फिसल जाने से वह गिरकर बेहोश हो गये, उनके पास पैसे थे जो नहीं मिल रहे है, इस बात से सदमें आकर महिला बहुत ही परेसान होकर बीमार जैसी स्थिति में आने लगी, थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा जानकारी की गयी कि महिला गरीब है और वर्तमान में राशन आदि की आवश्यकता भी है, बिना देर किये महिला आरक्षी पिकी को उसके घर भेजकर 10,000 रु0 की सहानुभूति सहायता राशि व राशन/सब्जी आदि उपलब्ध कराकर महिला का साहस बढ़ाया गया। थाना पुवायाँ पुलिस की निरन्तर की जा रही इस तरह की कार्यशैली को लेकर थाना क्षेत्र में अत्यन्त प्रशंसा की जा रही है।

इसी तरह जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा जनता को जीवन यापन सम्बन्धी किसी तरह की असुविधा न हो , के लिये प्रत्येक सम्भव मदद प्रदान की जा रही है, एवं लाक डाउन का शत प्रतिशत पालन कराया जा रहा है।जिसके लिये जनता द्वारा पुलिस को धन्यवाद भी दिया जा रहा है।